

संपादकीय

इंसाफ का नया अंदाज

न्यायपालिका के इंसाफ करने के नए अंदाज से एक तरफ सरकार की मंशा पूरी हो जाती है, और दूसरी तरफ अन्य पक्ष के लोग भी खुश हो जाते हैं कि उनकी दलील पर कोर्ट की मुहर लग गई। लेकिन क्या यह सचमुच न्याय है?

हाल के वर्षों में देश में इंसाफ का एक नया अंदाज देखने को मिला है। अंदाज यह है कि अगर मामला भारत सरकार या सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो, तो कोर्ट का फैसला कुछ ऐसा होता है, जिससे सत्ता पक्ष को ज्यादा परेशानी ना हो। मसलन, अगर किसी मामले में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसमें संवैधानिक प्रावधानों/ भावना या न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, तो अदालत यह बात दो टूक कहेगी, लेकिन साथ ही उस उल्लंघन के परिणाम को रद्द नहीं करेगी। इस तरह सरकार की मंशा पूरी हो जाती है, और दूसरे पक्ष के लोग भी खुश हो जाते हैं कि उनकी दलील पर कोर्ट की मुहर लग गई। लेकिन क्या यह सचमुच न्याय है? इस रुझान की ताजा मिसाल प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को बार-बार बढ़ाए जाने के मामले में देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध ठहराया। लेकिन साथ ही इस रुझान के लाभार्थी को तुरंत पद मुक्त करने का निर्देश नहीं दिया। जबकि अपेक्षित यह था कि अवैधानिक कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती और साथ ही सेवा-विस्तार के दौर में ईडी द्वारा लिए गए फैसलों को अगर रद्द नहीं, तो कम से कम पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश कोर्ट देता।

मगर इस मामले में वही ट्रेंड दोहराया गया, जो इसके पहले महाराष्ट्र में सरकार बदलने के मामले में दिखने को मिला था, या अयोध्या निर्णय में जिसके संकेत मिले थे। गौरतलब है कि पिछले करीब पांच सालों से ईडी का नेतृत्व कर रहे संजय कुमार मिश्रा की देखरेख में इस अवधि में एजेंसी से कई बड़े मामलों में जांच शुरू की है। भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को सबसे पहले 19 नवंबर, 2018 को दो साल के तय कार्यकाल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। उसके बाद उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया गया। उनके कार्यकाल में ईडी पर राजनीतिक नजरिए से प्रेरित कारवाइयां करने के कई इल्जाम लगे हैं। इसलिए यह मामला संवेदनशील था। कहा जा सकता है कि इसमें कोर्ट ने अर्ध-न्याय किया है।

यूएई पहुंचा रुपया, अब वहां भी करें यूपीआई से लेनदेन-मोदी के दौर में हुआ अहम करार

आवधावी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने दो करार किये जिसमें स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपये और यूएई दिरहम में लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेमवर्क बनाने तथा भुगतान एवं मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ना शामिल है। इससे यूएई में भी यूपीआई से लेनदेन संभव हो सकेगा। मोदी और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में इस संबंध में हुए करार पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने हस्ताक्षर किये।



लेनदेन में भारतीय रुपया और एईडी को बढ़ावा दिया जा सके। स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट सिस्टम बनाये जाने से निर्यात और आयातक अपनी अपनी मुद्राओं में बिल बना सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे। इससे रुपया एईडी विदेशी मुद्रा विनमय बाजार को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे दोनों देशों के बीच निवेश और रिमिटेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम के लिए भी करार किया गया है। दोनों केन्द्रीय बैंक अपने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और यूएई के

इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (आईपीपी) को जोड़ने में सहयोग करने पर सहमत हुये हैं। इसके साथ ही रुपे स्विच और यूएईस्विच को भी जोड़ा जायेगा। इसके तहत ही दोनों देशों के भुगतान मैसेजिंग सिस्टमों को भी एकीकृत किया जायेगा। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि यूपीआई आईपीपी को जोड़ने से दोनों के यूजर त्वरित, सुलभ और सुरक्षित तथा

ट्विटर जल्द ही प्रोफाइल पेज व्यूज से ऐड्स रेवेन्यू करेगा शेरर : मस्क

सैन फ्रांसिस्को । ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने रविवार को कहा कि 'वादे के मुताबिक', माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रोफाइल पेज व्यू से होने वाले विज्ञापन राजस्व को 'जल्द ही' साझा करेगा। मस्क ने ट्वीट किया, जल्द ही, हम प्रोफाइल पेज व्यू से विज्ञापन राजस्व साझा करेंगे, जिससे भुगतान लगभग दोगुना हो जाना चाहिए। ध्यान दें, केवल वेरिफाइड यूजर्स के व्यूज ही गिने जाते हैं, अन्यथा बॉट द्वारा व्यू काउंट में घोटाला करना मामूली बात है। उन्होंने यह भी कहा, हम वेरिफाइड यूजर्स के लिए रेट लिमिटेड 50 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे। कुछ घंटों के भीतर प्रभाव हो जाना चाहिए। ट्विटर ने शुक्रवार को क्रिएटर्स के लिए एक नया ऐड्स रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू किया और भारी रकम का भुगतान किया। अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद, प्लेटफॉर्म पर कई क्रिएटर्स ने मस्क



को धन्यवाद दिया और प्लेटफॉर्म से उन्हें मिले मैसेज के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। एक क्रिएटर को नए प्रोग्राम के माध्यम से 69,420 डॉलर भी मिले। मस्क ने स्पष्ट किया कि पेआउट्स बिल्कुल इंग्रेशन के मुताबिक नहीं था। महत्वपूर्ण यह है कि अन्य वेरिफाइड यूजर्स को कितने ऐड्स दिखाए गए। इस बीच, मस्क ने शनिवार को कहा कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट और भारी कर्ज के बोझ के कारण हम अभी भी नेगेटिव कैश फ्लो में हैं। किसी और चीज की विलासिता से पहले हमें पॉजिटिव कैश फ्लो तक पहुंचने की जरूरत है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ईएसजी सम्मेलन में लिया भाग

नई दिल्ली । ईएसजी (एनवॉयमेंट सोशल गवर्नेंस) रिसर्च फाउंडेशन ने ईएसजी दिशानिर्देशों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले संगठनों को वैश्विक पृथ्वी ईएसजी पुरस्कारों के वितरण के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार, अनुवंश राम मेघवाल, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम वी राव, भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय और अन्य कंपनियों/संस्थानों के साथ सम्मानित अतिथि में से एक थे। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियों/संगठनों ने भाग लिया, जिनमें बड़े कॉर्पोरेट, नेता, बैंकर, निवेशक, जनहितैषी, पर्यावरणविद्, सरकारी संगठन और अन्य संस्थागत सदस्य शामिल थे। वैश्विक पृथ्वी पुरस्कार 2023 की मान्यता के लिए एम वी राव प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों में से एक थे।

प्रियंका ने 20 किमी पैदल चाल में रजत और विकास ने जीता कांस्य पदक

बैंकॉक। भारत की प्रियंका गोस्वामी और विकास सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन रविवार को यहां क्रमशः महिलाओं और पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीते। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रियंका ने महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल में एक घंटा, 34 मिनट और 24 सेकंड का समय लेकर चीन की यांग लिउजिंग (1:32:37) के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। जापान की युकिको उमेनो ने 1:36:17 के समय




के साथ कांस्य पदक जीता। प्रियंका का सर्वश्रेष्ठ समय हालांकि एक घंटा, 28 मिनट और 45 सेकंड है। इस स्पर्धा में भाग ले रही एक अन्य भारतीय भावना जाट एक घंटा,

38 मिनट और 26 सेकंड का समय लेकर पांचवें स्थान पर रही। पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल में विकास ने एक घंटा, 29 मिनट और 32 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक हासिल किया। जापान के युतारो मुरायामा (1:24:40) ने स्वर्ण पदक जबकि चीन के वांग काहुइआ (1:25:29) ने रजत पदक जीता। भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक

अक्षदीप सिंह रस पूरी नहीं कर पाए क्योंकि जवां ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। विकास का सर्वश्रेष्ठ समय एक घंटा, 20 मिनट, पांच सेकंड है। यह उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 10 किमी पैदल चाल में रजत पदक जीतने वाली प्रियंका और विकास 17 से 29 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली विश्व चैंपियनशिप और 2024 में होने वाले पैरिस ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं।

लक्ष्य सेन अमेरिकी ओपन से बाहर, सेमीफाइनल में फेंग से हारे

काउन्सिल ब्लफ्स (अमेरिका) । भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में चीन के ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली शी फेंग से संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और यहां तीसरी वरीयता प्राप्त सेन दूसरी वरीयता प्राप्त फेंग के खिलाफ 17-21, 24-22, 17-21 से हार गए। शनिवार की रात को खेला गया बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट का यह मुकाबला एक घंटे 16 मिनट तक चला।



विश्व में सातवें नंबर के खिलाड़ी फेंग और 12वीं रैंकिंग के सेन के बीच यह मुकाबला काफी करीबी रहा। शुरूआती गेम में दोनों खिलाड़ी 17 अंकों तक बराबरी पर थे लेकिन के बाद चीन के खिलाड़ी ने आक्रामक रवैया दिखाया जबकि भारतीय खिलाड़ी ने कुछ गलतियां की। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सेन ने हालांकि दूसरे गेम में अच्छी वापसी की। पहले गेम की तरह दूसरे गेम में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों



खिलाड़ियों ने लंबी रैलियों की और 22 अंक तक दोनों बराबरी पर थे। लक्ष्य ने इसके बाद लगातार दो अंक बनाकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया।

तीसरा और निर्णायक गेम पहले गेम की पुनरावृत्ति था। फेंग ने शुरू में बड़त बनाई और इंटरवल तक वह 11-8 से आगे थे। सेन ने हालांकि हार नहीं मानी और 17 अंकों तक स्वयं को मुकाबले में बनाए रखा। चीन के खिलाड़ी ने इसके बाद दबाव बनाया तथा मैच अपनी झोली में डाला। सेन का फेंग के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 5-2 है। उन्होंने पिछले सप्ताह कनाडा ओपन में चीन के खिलाड़ी को 21-18, 22-20 से हराकर अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 खिताब जीता था।

अजमेर 92 का टीजर जारी, 21 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी और 72 हूँ के बाद भारतीय सिनेमा की एक और विवादित फिल्म अजमेर 92 पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। इसका निर्देशन पुष्पेंद्र सिंह ने किया है और यह फिल्म अजमेर 92 का टीजर जारी कर दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यह फिल्म 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



शिंदे, मनोज जोशी और राजेश शर्मा जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। 21 अप्रैल, 1992 में राजस्थान के अजमेर में सैकड़ों लड़कियों के साथ हुई हैवानियत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक अखबार के पहले पेज पर सोफिया

गर्लस कॉलेज की छात्राओं की न्यूड फोटोज ब्लर करके लगाए गए थे, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। यह फिल्म इसी कांड पर आधारित है। हाल ही में, राजस्थान हाई कोर्ट ने सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले भी ये फिल्म अजमेर 1992, 14 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

अनुपम खेर की शिव शास्त्री बालबोआ ने ओटीटी पर दी दस्तक

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म शिव शास्त्री बालबोआ ने 10 फरवरी, 2023 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा। अब शिव शास्त्री बालबोआ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे दी है। इसका प्रीमियर 14 जुलाई (शुक्रवार) को अमेजन प्राइम वीडियो पर हो गया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो अब घर बैठे इसे देख सकते हैं।



शिव शास्त्री बालबोआ में अनुपम के अलावा नीना गुप्ता, जुगल हसराज, नरगिस फाखरी और शारिख हाशमी जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आए थे। इसका निर्देशन अजयन वेणुगोपालन द्वारा किया है।

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं हरी मूंग कटलेट

नाश्ते में तला-भुना या फिर अनहेल्दी खाने का मन कई बार नहीं करता है। खास कर वो लोग तो डीप फ्राई या अनहेल्दी कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं, जो हेल्थ और फिगर कॉन्स्यस होते हैं, ऐसे में नाश्ते में कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करने का मन करता है, जो प्रोटीन रिच होने के साथ नॉन ऑयली भी हो, तो ऐसे में आप हरी मूंग कटलेट (Green moong cutlets) की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।



पनीर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, भुना जीरा पाउडर और नमक भी एड कर दें और बारीक पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी न डालें वरना मिश्रण बहुत अधिक पानीदार हो सकता है। इसकी थिकनेस ऐसी हो जिससे हाथ पर आराम से टिककी बनायी जा सके। अब सारे मिश्रण को किसी बाउल में निकालें और हाथ पर इसकी लोई लेकर टिककी का शोप दें। फिर गैस पर तवा गर्म करें और इस पर केवल उतना ही ऑयल लगाएं, जिससे कटलेट तवे पर चिपके नहीं, फिर इन टिककी को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लें। आपके गर्मागर्म हेल्दी हरी मूंग कटलेट तैयार हैं। इनको आप अपनी पसंद के अनुसार हरी चटनी, केचप या दही के साथ सर्व करें।

शब्द सामर्थ्य- 127

बाएँ से दायें  
1. अभिमान, घमंड, अहंमान 4. मार डाला हुआ, धायल किया 21. संसार, दुनिया, जग 14. हुजूर, जनाब, सम्मान सूचक एक शब्द (उ. ) 16. सच्चा, धर्मनिष्ठ, अधिकांश बाला, अधिकारी 8. आग की लपट, ज्वाला 24. ईमानवाला 17. अनुत्, बाँका, अनुपम, छेला 18. आश्रय, शरण 19. साधुवाद, प्रशंसा 20. पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत संबंधी अनेक बातें लिखी जाती हैं, एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग 20. 'खन' ध्वनि उत्पन्न होना, अंश 9. मृत्यु के देवता 13. 23. गम, मातम, दुख।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 126 का हल

|    |    |    |    |    |    |    |  |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|--|----|--|
| 1  | 3  | 4  | 5  |    |    |    |  |    |  |
|    | 6  | 7  |    |    | 8  | 9  |  |    |  |
| 10 |    |    |    |    |    | 11 |  |    |  |
|    | 12 | 13 | 14 |    |    |    |  |    |  |
| 15 | 16 |    |    |    |    |    |  | 17 |  |
|    |    | 18 |    | 19 |    |    |  |    |  |
| 20 |    |    |    | 21 |    |    |  |    |  |
|    |    |    |    |    | 22 |    |  |    |  |
| 24 |    |    |    |    |    | 25 |  |    |  |

स्मृ ति पा व क वे ल  
र ज नी च र र्द  
सु स्का न न म की न  
सा र स ट ख ना  
फि अ जा य ब रा जा  
र च ना थाल य  
धि र्थ स मा ज  
उ प कृ त आ वा ज  
ल्लू त ब ल रा म

सू-दोक्- 127

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 7 |   | 2 | 1 |
| 2 |   |   | 9 | 4 |   |
| 7 |   | 1 |   |   | 5 |
|   | 1 | 5 | 2 | 7 |   |
| 5 |   |   | 4 |   |   |
|   | 4 |   | 1 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 9 |   |   |
| 2 |   | 6 | 5 | 1 |   |

नियम  
1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बनाता है।  
2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।  
3. बाएँ से दायें और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र.126 का हल

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 |

आज का राशिफल

**मेघ :** आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवनसाथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। आज आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। आपको अपने काम के प्रति सचेत रहना चाहिए।  
**वृष :** आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कोई ऐसा काम आपके पास आया, जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर हो जायेगी। आपके रूके हुए काम किसी रिश्तेदार की मदद से जल्द पूरे हो जायेंगे।  
**मिथुन :** आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी निजी काम को पूरा करने के लिए बड़े-बुर्गों की राय मानना आपके लिए कारगर साबित होगा। घर में बच्चों की बर्धडे पार्टी का आयोजन कर सकते हैं।  
**कर्क :** आज आपका दिन शानदार रहेगा। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा लाभदायक हो सकती है। आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है। हर तरह के मामलों में आप शांत मन से विचार करेंगे।  
**सिंह :** आज आपका दिन मनोबुद्धल रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से आपको फायदा होगा। किसी अनुभवी की मदद से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। पहले किए गये कार्यों से आपको लाभ होगा।  
**कन्या :** आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। कोई काम पूरा होने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। किसी अनुभवी की मदद आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। समाज के लोग आपके पक्ष में रहेंगे।  
**तुला :** आज आपका दिन हेल्थ की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी सहकर्मी से जरूरी काम पर रोचक चर्चा हो सकती है। दूसरों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे।  
**वृश्चिक :** आज आपका दिन शानदार रहेगा। बच्चों के साथ घर पर समय बिताएँ। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा ऑफिस में सहयोगी आपके काम से काफी प्रभावित होंगे।  
**धनु :** आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। इस राशि के नौकरी करने वालों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में काम ज्यादा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है।  
**मकर :** आज आपका दिन सामान्य रहेगा। परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे। आपकी सेहत सुधार के प्रयास थोड़े उतार-चढ़ाव के साथ संभल होंगे। ऑफिस में टीम मेंबरों से मधुरता बनाए रखें। गुस्से पर कंट्रोल रखें।  
**कुंभ :** आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नये रास्ते खुले नजर आयेँ। ऑफिस में कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से उत्सुक थे। इस राशि के विवाहितों के लिए दिन यागार रहने वाला है।  
**मीन :** आज आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होना तय है। जीवन में धन लाभ के नये अवसर आयेँ। रुके हुये काम पूरे होने पर आपको खुशी का अनुभव होगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे।